

Date: 14.02.2024

To

**BSE Limited** 

Listing Department P.J Tower, Dalal Street Mumbai – 400001

Stock Symbol -540047

To

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Stock Symbol -DBL

Sub: Newspaper advertisement

### Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the publication of financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023. The advertisement has been published in Business Standard Newspaper (English and Hindi) on Wednesday, February 14, 2024.

Further, the said information is also available on the Company website at www.dilipbuildcon.com

Thanking you

For Dilip Buildcon Limited

Abhishek Shrivastava Company Secretary

Encl: Copy of Newspaper in English and Hindi.

E-mail: db@dilipbuildcon.co.in, Website: www.dilipbuildcon.com



# ख़बरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ्तार



पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम देश और आपके प्रदेश की सबसे बडी बिज़नेस खबरें



शेयरों और क्षेत्रीय मंडियों के भाव प्रमुख शेयरों और विभिन्न राज्यों की मंडियों के जिस भाव



कंपनी और जिंस समाचार

कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिंस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार



विविध समाचार

राजनीतिक और आर्थिक समाचार



मनोरंजन, स्वारथ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें



व्यापार गोष्ठी

हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय



अन्य साप्ताहिक पृष्ठ

हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्टर' और आपका निवेश

- अपनी प्रति के लिए-

SMS reachbs to **57575** or email us at order@bsmail.in

बिजनेस स्टैंडर्ड

बेहतर बिजनेस वो जो आपकी भाषा में हं

f businessstandardhindi bshindi hindi.business-standard.com सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **14**º 19th & 22md February 2024 को (बंधक आमूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगत कर दी गई है और अब 29th February 2024, 01st & 11th March 2024 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

> कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छ्डा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

SURAKSHA सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड

 (सीआईएन : यू74120एमएच2015पीएलसी268857)
 पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, 36 डा. आर.के. श्रीओढ़कर मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई-400012, दूरनाष : +91 22 69093635, फैक्स : 91 22 4027 3700, **ईमेल आईडी :** pratibha.upadhyay@surakshaarc.com, **वेबसाइट :** www.surakshaarc.com

वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय (अनिष्पादनकारी खाते)

ऋणग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर निर्गत आरबीआई के दिशानिर्देशों के संदर्भ में, सुर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ("सुरक्षा एआरसी") द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, अनुसूचि वाणिज्यिक बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित पात्र अ–बैंकिंग वित्त कंपनिये (एनबीएफसी) और पात्र अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों इसके बाद बोलीदाता / . खरीदार/अधिग्रहणकर्ता/हस्तांतरिती के रूप में संबोधित, जिन्हें वहां उनके समक्ष बताए गए नियम और शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विधिवत लाइसेंसधारक बनाया गया है, से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) निमंत्रित की जाती है। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि हस्तांतरण सुरक्षा एआरर्स के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वार निर्गत लागू नियमों के अधीन भी होगा।

विक्रय "जैसी है जहां है एवं जैसी है जो है" आधार पर और "बिना किसी सहारा" आधार पर होगा योग्य बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से भागीदारी की अपनी इच्छा के बारे में सूचित करें। सुरक्षा एआरसी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सलाहकारों के रूप में स्पेशल सिचुएशन एडवाइजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। अधिक जानक री के लिए कृपया हमारी वेबसाइट surakshaarc.com देखें।

दिनांक : 14-02-2024

स्थान : मुंबई

(T) IDBI capital

रिवच चैलेंज विधि के तहत ई-नीलामी के माध्यम से पात्र एआरसी को मेटनेर लिमिटेड (''एमएल'') के तनावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण के संबंध में विज्ञापन

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड ("आईसीएमएस") एसबीआई बैंक और अन्य संघ उघारदाताओं ("उवार्यदाता") की ओर से रिक्स चेंतर पर इति के त हत ई-नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है", "वेंद्रा में कुष्ण में है" और "तार्यिक्टरिक्ट "जार्य से इं-नीलामी के माध्यम से रुपये 3040.03 करोड, (रुपये तीन हजार चालीस करोड और तीन लाख मात्र) के प्रत्यामृत वित्तीय लेनदारों के स्वीकृत दावों के साथ मेटनेर लिमिटेड ("एमएल") खातों के लाचपर करण एक्सपोजर के हस्ताता स्वर्ण पतार्य कि साथ मेटनेर लिमिटेड ("एमएल") खातों के लाचपर करण एक्सपोजर के हस्तातारण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूद दिशानिवेंशों के अनुसार रुपि की अभिव्यक्ति ("ईश्वोजाई") आमंत्रित करता है ऋणदाता ऋण जोखिस से संबंधित किसी भी परिचालन, कानुनी या किसी अन्य प्रकार के जोखिम को नहीं मानेंग और एमएल के लिए कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी प्रदान नहीं करेंगी। सभी इच्छुक पात्र प्रितानीशों से अनुरोध है कि वे "श्वीव की अभिव्यक्ति" (ईश्वोजाई) के माध्यम से और एक गेर-पक्टिकरण समझोते की निष्पादित करके ई-नीलामी में भाग लेने की अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। ईश्वोआई जाना करने की अतिम तिथि 17 फरवरी, 2024 है। इच्छुक वोलीदाता बैंक की बस tert https://bank.sbi को में देख सकते हैं और अधिक जानकारी (वेंब नोटिस) के लिए SBI in news > Auction Notice > ARC & DRT लिंक या www.idbicapital.com पर विलक कर सकते हैं और निविदा और बोली पर विलक कर सकते हैं। इच्छुक

संपर्क व्यक्तियों	उपाधि	संपर्क विवरण	ईमेल आईडी
अभिषेक कुमार	एजीएम, एसएएमबी 1, नई दिल्ली	9910855100	abhishek.kumar18@sbi.co.in
सिजू वेलायुधान	एजीएम, एएमटी3 मेटल2–एसएआरजी,सीसी, मुंबई	6261093969	shiju.velayudhan@sbi.co.in
ओमकार जोशी	वरिष्ठ कार्यकारी आईसीएमएस	+91 22 2217 1897 / 9619544352	omkar.joshi@idbicapital.com

पया ध्यान दें कि इस विज्ञापन में परिकरिपत ई-नीलामी प्रक्रिया ऋणदाताओं के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन गी। इसके अलावा, ऋणदाता वेबसाइट पर शुद्धिमत्र अपलोड करके कोई कारण बताए बिना, किसी भी स्तर पर इस विज्ञापन और क्रिया स्त्तात्रेका केर इकरेन या संशोधित करने, संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुपक्षित रखते हैं। यह एक प्रस्तात्र स्तावेज नहीं है और बिना किसी प्रतिबद्धता के जारी किया जा रहा है। इस संबंध में ऋणदाताओं का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

द्वारा जारी किया गर आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटे थान : मुंबई नांक : 14.02.2024

## RRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE BLIC SHAREHOLDERS OF

### **AKM CREATIONS LIMITED**

("TARGET COMPANY") (FORMERLY KNOWN AS AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED) Regd office: C-110 G/F Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi, East Delhi -110032 Website: www.akmlace.com

Open offer for the acquisition of 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six Only) Fully Paid-Up Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each, representing 26.00% of the total Equity and voting Share Capital of the Target Company by Arhat Touch Private Limited (herein after collectively referred as "Acquirer") at a price of Rs. 15/- (Rupees Fifteen Only) per fully paid-up Equity Shar (the "Offer Price") payable in Cash pursuant to the Securities and Exchange Board o India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amend from time to time ("SEBI (SAST) Regulations").

This Corrigendum (the "Corrigendum") to the Letter of Offer ("LOF") dated February O 2024, sent to Securities and Exchange Board of India is being issued by Fast Track Finse Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of Arhat Touch Private Limitee ("The Acquirer").

This Corrigendum is to be read in continuation of, and in conjunction with the LOF. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the LOF (as the case may be), unless otherwise specified.

The shareholders of AKM Creations Limited are requested to note the developments amendments with respect to and in connection with Open Offer are as under:

BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Shares in the Open Offer. Equity shares of Target Company are listed on SME Platform of BSE Limited. At present the bid lot is of 3000 Equity Shares and hence bids in the open offer can be made for a minimum of 3000 Equity Shares and in multiples of 3000 **Equity Shares thereafter.** Except as detailed in this Corrigendum, all other terms of the PA, DPS, DLOF & LOF (as th

case may be) remain unchanged.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendun to LOF (as the case may be) also for the fulfillment of the obligations of the Acquirers lai down in the Regulations, as amended from to time to time.

A copy of this Corrigendum to LOF will be available on SEBI's website- www.sebi.gov.in BSE's website www.bseindia.com; and on Lead Manager website - www.ftfinsec.com;

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER Fastrack Finsec

FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Telephone: +91-11-43029809
Email: mb@ftfinsec.com, Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma SERI Por No: INMODOL12500 CIN: U65191DL2010PTC200381

Date: 13.02.2024, Place: New Delhi

केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ाकृत कार्यालय : 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लेनट लॅंडमार्क से सटा, अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन—अंबली रोड, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात—380054 **कॉर्पोरेट कार्यालय** : सी —902, लोटस पार्क, ग्राइम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), गुंबई—40063, महाराष्ट्र, भारत फोन सं. : +91 22 61796400, **ई**मैल : contac(@kifshousing.com, वेबसाइट : www.kifshousing.com CIN : U65922GJ201PLC085079 | आरबीआई कोर : DOR-00145

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना के आईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम) के अंतर्गत उधारकर्ता / औं से देय राशि की वसूली के (एए इसके तहत उल्लेखित प्रत्याभृत संपत्ति का कब्जा लेने के अनुसार में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अचल संपत्ति की खरीद के लिए जो भौतिक कब्जे में है, नीचे वर्णित है, ''जो है जहां है आधार'' 'जो है जैसा है आधार'' और ''वहां जो कुछ भी है आधार'' पर सीलबंद कवर में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

।दया गया ह :				
उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं)	मांग सूचना की दिनांक और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण/ प्रत्याभूत परिसंपत्ति	आरक्षित मूल्य	अग्रीम राशि जमा (ईएमडी) (10%)
नानूराम पटेल मानू बाई पटेल (ऋण खाता सं.: LNHLIND000671)	15 जुलाई, 2021 कुल बकाया 15 जुलाई,2021 तक रुपये 16,44,925/—	अचल संपत्ति स्थित मकान सं. 7-ए, दक्षिण भाग चाणक्यापुरी, धार, मध्य प्रदेश, 454001 का संपूर्ण व सर्वागीण भागा विक्री विलेख अनुसार सिमांकन: पूर्व : प्लॉट सं. 14, पश्चिम : सड़क, उत्तर: प्लॉट सं. 7-ए का शेष भाग, दक्षिण : लोहार का मकान	₹. 11,50,000/–	<b>ゃ</b> . 1,15,000/–
श्रीराम ध्रुवे सीमा ध्रुवे (ऋण खाता सं.: LNHLJBL000122)	15 जुलाई, 2021 कुल बकाया 15 जुलाई, 2021 तक रूपये 21,82,805/—	अचल संपत्ति स्थित प्लॉट सं. 08 और 09, खसरा सं. 225 और 226 पी. एच सं. 42, वार्ड सं. –79, मोजा – पिपरिया, पिपरिया रोड जबलपुर का संपूर्ण व सर्वागिण माणा क्रिकी विलेख अनुसार सौमांकन: पूर्व : सड़क, पश्चिम : विक्रेता की संपत्ति, उत्तर : प्लॉट सं. 10, दक्षिण : प्लॉट सं. 07	₹. 11,00,000/–	ゃ. 1,10,000/–
आदर्श सिंह महिमा सिंह डांग पर्वत सिंह डांगी (ऋण खाता सं.: LNHLBPL005358)	14 फरवरी, 2023 कुल बकाया 10 जनवरी,2023 तक रूपये 2,65,472/—	संपत्ति धारक राजस्व सर्वे सं. 68/1/4 की परिवर्तीत भूमि का एक भाग, प्लॉट सं. 14, हरसिद्धी कालोनी, स्थित ग्राम टिकन्पबेडी पटवारी हरूका सं. 24, तहसील बेरिसया भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भारत 463 106 का संपूर्ण व सर्वांगीण भागा विक्री विलेख अनुसार सीमांकनः उत्तर: 20 पुरु चौडी सड़क, पूर्व: खुला प्लॉट सं.13, पश्चिम: खुला प्लॉट सं.15, दक्षिण: सलमान खान की भूमि।	₹. 3,10,700/–	₹. 31,070/–

- ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा फॉर्म में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम दिनांक **13 मार्च, 2024** को शा 5.00 बजे के मीतर कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर है : सी–902, लोट्स कॉर्पोरेट पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर एक्सप्रेस हाईवे जीरेज के जो ने नाम जीरोजिया के रिवार के किया है। जियह, महिरा के बाद नहीं किया के प्रतिक्र के प्रतिक्र के प्रतिक गोरीगांव (पूर्व), मुंबई-400063 या 301 फॉर्च्यून एंबीयर्स, 4/2 साउथ तुकोगज, इंदौर म. प्र.—452001/ क्रायतिज स्वर तल, 46 अहुजा टॉवर, मार्वल सिटी हास्पिटल के सामने, जबलपु, म.प्र.—482001/ प्रथम तल डॉमिनो के ऊपर,91 ए, एम पी नगर, झोन–2, भोपाल, म. प्र.—462011 ('शाखा कार्यालय')। अंतिम दिनांक के बाद नहीं भरी गई या प्राप्त निविदाओं को अमान्य निविदा कारान्य नार्वार अ.स.न्यर्थ ए । र तार्वा वर्षायां अप्रतार अर्था कार्या स्वरं व अर्था कार्या वा वर्षायां माना जाएगा और तदनुसार अर्थीकार कर दिया जाएगा, ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी दिनांक) खोलने की दिनांक 14 मार्च, 2023 को उपर्युक्त कॉर्पोरेट पते पर सुबह 10.00 बजे से
- शाम 6:00 बजे तक। प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में निविदा खोली जाएर्ग
- उधारकर्ता और गारंटर को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए सूचित किया जाता है और वे बिक्री के नियमों और शर्तों वे अनुसार ऊपर वर्णित अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों /खरीदारों को ला सकते हैं।
- जनुस्तार जनस्यागा जनस्य समार कार्यन्त कार्यक्र कुछ वस्त्र वार्यन क्यानिय कार्यन स्वाप्त कार्यन स्वाप्त कार्यन स सफ्तेसी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दिनों की बिकी की सूचना आग जनता को सामान्य रूप से और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(शें) को दी जाती है कि उपर्युक्त उल्लेखित अचल संपत्ति को प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रास् किया गया है, जिसका मीतिक कब्जा केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (''केएवएफएस'') प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी झारा लिमा या है, जिसे बिकी की दिनांक से पहले कआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस तिमिटेड को देश शिक पूरा मुगतान करने के लिए ''जो है जहां हैं'', ''जो है जैसा है'', और ''वहां जो कुछ भी है'' पर बेचा जाएगा और नीलामी रोक दी जाएगी।
- अचल संपत्ति को सबसे ऊंची निविदा में बेचा जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास आवश्यक समझे जाने पर पारस्परिक बोली की
- अनमति देने का पर्ण विवेकाधिकार सरक्षित है। उल्लेखित संपत्ति को आरक्षित मल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा के आईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऊपर उल्लेखित संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की
- नीलामी ''जो है जहां है आधार'', ''जो है जैसा है आधार'', और ''वहां जो कुछ भी है आधार'' के आधार पर की जाएगी डिमांड ड्राफ्ट केवल ''केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। नीलामी बिक्री के विवरण नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपन्न में शामिल की गई हैं। निविदा प्रपन्न उपर्युक्त कॉर्पोरेट पते पर उपलब्ध हैं।
  - प्राणाना बन्नेय के परिकर्ण नियम जार है। ति सार्वित प्राप्त के अने का नियम अपने हैं। ति सार्वित अपने के उपलब्ध क प्राणाना बने के अन्य नियमों और शर्तों के लिए कृपया हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और www.kifshousing.com पर जाएं। और बोली लगाने के अन्य नियमों और शर्तों के लिए कृपया हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और www.kifshousing.com पर जाएं।

हस्ता./-,प्राधिकृत अधिकारी



स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड

सी.आई.एन.: L31102MP1977PLC001393 पंजीकृत कार्यालयः 92-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.)-462023, फोनः + 91-0755 2586680 ई-मेलः star.delta@rediffmail.com । वेबसाइटः www.stardeltatransformers.com

## EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

					(Ar	nount in Lacs)
	"Quarter	"Preceeding	Corresponding	"Nine Months	"Corresponding	
Doubleuleus	ended	Quarter ended	Quarter ended in	ended	Nine Months ended	04 May 00
Particulars	December 31, 2023	September 30, 2023	the previous year December 31, 2022	December 31, 2023	in the previous year December 31, 2022	31-Mar-23
	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
Total Income from operations (net)	3564.93	3774.60	2248.77	10488.27	3414.75	7499.80
Net Profit / (Loss) for the period						
(before tax Exceptional and/or Extra ordinary items	333.01	414.60	187.70	1134.48	321.03	768.72
Net Profit / (Loss) for the period before tax						
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	333.01	414.60	187.70	1134.48	321.03	768.72
Net Profit / (Loss) for the period after tax						
(after Exceptional and/or Extra ordinary items)	244.76	310.95	147.73	899.52	225.95	575.86
Total comprehensive income for the period	244.76	310.95	147.73	899.52	225.95	575.86
Paid up Equity Share Capital						
(face value of Rs.10/- each)	300.02	300.02	300.02	300.02	300.02	300.02
Reserves (excluding Revaluation Reserve as						
shown in the Balance Sheet of Previous year)	6859.01	6614.25	5609.58	6859.01	5609.58	5959.49
Earning Per Share (of Rs. 10/- each						
(for continuing Operations)						
Basic :	8.16	10.36	4.92	29.98	7.53	19.19
Diluted :	8.16	10.36	4.92	29.98	7.53	19.19

### NOTES:

स्थान: भोपाल

दिनांक: 13/02/2024

- 1. उपरोक्त परिणाम की समीक्षा कंपनी की ऑडिट सिमिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित की गई है। इन परिणामों को सीमित समीक्षा के अधीन कर दिया गया है जो कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कि गई है और उन्होंने एक असंशोधित समीक्षा राय व्यक्त की है।
- 2 उपरोक्त परिणाम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- 3. उपरोक्त परिणाम दिसंबर 31, 2023 को समाप्त अनधिकृत स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का एक उद्धरण है, जिसका पूर्ण रूप सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों, 2015 के 33 विनियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज पर दायर किया गया है। उसी का प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट () और कंपनी की वेबसाइट (www.stardeltatransformers.com) पर उपलब्ध है।
- 4. पिछले अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से संगठित/पुनर्गठित किया गया है।

स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के लिए sd/-किशोर गुप्ता DIN: 00014205 चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर



Registered Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh (CIN: L45201MP2006PLC018689)

## India's Largest Road Construction Company





Revenue

257,110



Rs 21,843 Crores Order Book



10,571 Equipments



Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31 December 2023

PAT

9.529

**EBITDA** 31,848

(₹ in lakhs)

(₹ in lakhs)

				Stan	dalone		
Sr.	Berkleyleye		Quarter ended		Nine mon	ths ended	Year ended
No	Particulars	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	259,677.97	246,149.92	240,724.30	768,525.03	731,590.11	1,018,417.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	12,969.01	10,944.28	4,952.87	36,231.38	9,524.89	15,125.48
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	15,002.12	14,582.42	9,620.93	41,902.64	20,141.57	27,973.59
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	9,529.40	11,967.04	7,951.60	29,832.96	16,346.98	22,177.51
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10,525.00	12,226.46	8,044.98	31,665.65	16,650.78	26,846.51
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	490,523.46	435,496.56	445,692.29
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.62	91,429.62	91,429.62
9	Net worth	NA	NA	NA	505,144.95	450,118.06	460,313.78
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	215,420.94	291,276.29	268,573.33
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	0.43	0.65	0.58
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	"1. Basic:	6.52	8.18	5.44	20.40	11.18	15.17
	2. Diluted:	6.52	8.18	5.44	20.40	11.18	15.17
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	15,000.00	15,000.00
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.00	0.83	0.55
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.92	2.03	1.29
	Note - 'NA' represents details not available for a particul	ar quarter since th	nese are calculate	d as of period end.			

		Consolidated						
Sr.	Particulars		Quarter ended		Nine mon	ths ended	Year ended	
No	Particulars	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (net)	290,156.05	289,420.49	235,088.64	874,006.48	786,022.27	1,071,160.85	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	4,305.94	2,910.17	(11,650.14)	13,599.05	(23,041.18)	(27,530.96)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	17,293.26	11,835.77	16,509.67	35,511.98	11,067.25	10,342.24	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	11,286.80	7,320.60	11,024.72	19,838.38	6,815.80	(139.24)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,133.91	7,584.19	11,119.44	22,867.46	7,120.59	4,496.31	
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	422,869.04	348,059.71	385,539.04	
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.62	91,429.62	91,429.62	
9	Net worth	NA	NA	NA	437,490.53	362,681.20	400,160.54	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	676,573.44	819,319.52	665,796.86	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	1.54	2.26	1.67	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	"1. Basic:	7.72	5.01	7.54	13.57	4.66	(0.10)	
	2. Diluted:	7.72	5.01	7.54	13.57	4.66	(0.10)	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	15,000.00	15,000.00	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.01	0.63	0.64	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.56	1.09	1.14	

Place: Bhopal Date: 12 February 2024

- The above unaudited Standalone and Consolidated financials results were reviewed by the Audit Committee and were approved & taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on 12 February 2024 respectively
- The above unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine months period ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website, www.dilipbuildcon.com.
- Figures for the earlier periods have been regrouped wherever necessary

For and on behalf of the Board of Directors of Dilip Buildcon Limited

स्थान : मध्य प्रदेश | दिनांक : 14.02.2024

## **NOTICE**



**SUNDARAM MUTUAL** 

### RECORD DATE FOR INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL (IDCW)

NOTICE is hereby given that Sundaram Trustee Company Limited, the Trustee to Sundaram Mutual Fund, has declared Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) on the face value of ₹ 10/- under the following schemes:

	Scheme Name	Plan - Option	Record Date#	Amount of IDCW* (₹ per unit)	NAV per unit as on February 12, 2024 (₹)
l	Considerant Americanics I behavior Found	Regular Plan-Monthly-IDCW		0.250	27.7656
l	Sundaram Aggressive Hybrid Fund	Direct Plan-Monthly-IDCW	Falaman 16 2024	0.350	41.5406
l	Sundaram Balanced Advantage Fund	Regular Plan-Monthly-IDCW	February 16, 2024	0.080	15.2432
	Sundaram baranced Advantage rund	Direct Plan-Monthly-IDCW		0.095	18.2502

- # Or subsequent business day if the specified date is a non-business day.
- \* Income Distribution will be done/IDCW will be paid, net of tax deducted at source, as applicable.

Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the scheme will fall to the extent of payout and statutory levy, if applicable. The IDCW pay-out will be to the extent of above mentioned IDCW per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower. Past performance may or may not be sustained in future. All unitholders under the IDCW Option of the above-mentioned schemes, whose name appears on the Register of Unitholders on the aforesaid Record Date, will be entitled to receive the IDCW. The above stated quantum of IDCW and the Record Date were approved by the Board of Directors of Sundaram Trustee Company Limited vide their circular resolution dated February 13, 2024.

For Sundaram Asset Management Company Ltd

Date: February 14, 2024 For more information please contact:

Place: Chennai

R Aiith Kumar Company Secretary & Compliance Officer

Sundaram Asset Management Company Ltd (Investment Manager to Sundaram Mutual Fund) CIN: U93090TN1996PLC034615 Regd. Office:

Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14.

Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215 Fax: +91 44 2841 8108. www.sundarammutual.com No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme-related documents carefully.



## DILIP BUILDCON LIMITED

Registered Office: Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh (CIN: L45201MP2006PLC018689)

India's Largest Road Construction Company











19 States 1 Union Territory

Rs 21,843 Crores

Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31 December 2023

(₹ in lakhs)

(₹ in lakhs)

**EBITDA** Revenue 31,848 257,110

PAT 9,529

			Standalone					
Sr.	Particulars		Quarter ended		Nine mon	ths ended	Year ended	
No	Farticulars	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (net)	259,677.97	246,149.92	240,724.30	768,525.03	731,590.11	1,018,417.43	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	12,969.01	10,944.28	4,952.87	36,231.38	9,524.89	15,125.48	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	15,002.12	14,582.42	9,620.93	41,902.64	20,141.57	27,973.59	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	9,529.40	11,967.04	7,951.60	29,832.96	16,346.98	22,177.51	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10,525.00	12,226.46	8,044.98	31,665.65	16,650.78	26,846.51	
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	490,523.46	435,496.56	445,692.29	
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.62	91,429.62	91,429.62	
9	Net worth	NA	NA	NA	505,144.95	450,118.06	460,313.78	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	215,420.94	291,276.29	268,573.33	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	0.43	0.65	0.58	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	"1. Basic:	6.52	8.18	5.44	20.40	11.18	15.17	
	2. Diluted:	6.52	8.18	5.44	20.40	11.18	15.17	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	15,000.00	15,000.00	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.00	0.83	0.55	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.92	2.03	1.29	
	Note - 'NA' represents details not available for a particul	ar quarter since th	iese are calculate	d as of period end.				

		Consolidated						
Sr.	Bartley Law		Quarter ended		Nine mon	Year ended		
No	Particulars	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (net)	290,156.05	289,420.49	235,088.64	874,006.48	786,022.27	1,071,160.85	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	4,305.94	2,910.17	(11,650.14)	13,599.05	(23,041.18)	(27,530.96)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	17,293.26	11,835.77	16,509.67	35,511.98	11,067.25	10,342.24	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	11,286.80	7,320.60	11,024.72	19,838.38	6,815.80	(139.24)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,133.91	7,584.19	11,119.44	22,867.46	7,120.59	4,496.31	
6	Paid up Equity Share Capital	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	14,621.50	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	422,869.04	348,059.71	385,539.04	
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA	91,429.62	91,429.62	91,429.62	
9	Net worth	NA	NA	NA	437,490.53	362,681.20	400,160.54	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	NA	NA	NA	676,573.44	819,319.52	665,796.86	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
12	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	1.54	2.26	1.67	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	"1. Basic:	7.72	5.01	7.54	13.57	4.66	(0.10)	
	2. Diluted:	7.72	5.01	7.54	13.57	4.66	(0.10)	
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	15,000.00	15,000.00	
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.01	0.63	0.64	
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	1.56	1.09	1.14	

Place: Bhopal Date: 12 February 2024

- The above unaudited Standalone and Consolidated financials results were reviewed by the Audit Committee and were approved & taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on 12 February 2024 respectively.
- The above unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine months period ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website, www.dilipbuildcon.com.
- 4. Figures for the earlier periods have been regrouped wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of Dilip Buildcon Limited

DIN - 00039944



## **WEST COAST PAPER MILLS LIMITED**

Your partner in progress....

(an ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 Certified Company)

**EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR** THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

						(	Rs. in Crores)
SI.			Quarter Ended	t	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
No.	PARTICULARS	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
			Unaudited		Unau	idited	Audited
1	Total Income from Operations	1045.13	1193.84	1239.16	3377.59	3563.28	4920.76
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	206.77	293.66	422.70	879.70	1033.38	1493.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	206.77	293.66	422.70	879.70	1033.38	1477.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	158.76	218.54	310.98	655.66	766.05	1087.01
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (Share of the Owners of the Company)	135.93	190.77	263.74	572.22	663.74	941.98
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	177.23	226.89	308.83	686.71	763.75	1077.94
7	Paid up Equity Share Capital (Face value : Rs 2/- per share)	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	2567.54
9	Earnings per share (Basic / Diluted) (Face value: Rs 2/- per share) EPS for the quarter are not annualised	20.58	28.88	39.93	86.64	100.49	142.62

a)

Rey Information on Standarde Unaudited Financial Results (Rs. in							
		Quarter Ended	k	Nine Mont	Year Ended		
PARTICULARS	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	
		Unaudited		Unau	Audited		
Total Income from Operations	564.73	706.36	660.43	1922.47	2043.61	2810.33	
Profit before Tax	92.51	196.99	187.81	510.28	564.33	799.36	
Profit after Tax	77.64	155.61	141.92	393.73	421.11	587.12	
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	87.00	159.66	138.98	409.22	419.00	582.61	

- b) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on February 13, 2024. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website i.e., www.westcoastpaper.com
- c) During the Current Quarter, in the first week of November, there was a major breakdown in one of the TG sets at company's paper division at Dandeli, Ka

Accordingly, working of the Company got adversely impacted. The TG Set got restarted in the last week of December and now working normal

- d) The Company acquired Uniply Décor Limited (UDL) vide National Company Law Tribunal (NCLT) Division Bench-I, Chennai Order dated 20.09.2023 under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The Implementation & Monitoring Committee of UDL has been constituted and the reconciliation and updation of Books of Accounts up to the date of acquisition is still under process. There were no operating activities undertaken by UDL during the quarter, hence not considered for consolidation
- # Exceptional Items: During the previous year ended March 31, 2023, one of the subsidiaries Andhra Paper Ltd (APL), on temporary closure of Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited (APGPCL), has created provision for value of investment in APGPCL of Rs. 1946.42 lakhs. The provision to the extent of Cost of Investment of Rs. 1538.37 Lakhs has been disclosed as an Exceptional item in the Profit & Loss Account and the remaining value of Rs. 408.05 lakhs has been debited to Other Comprehensive Income

By Order of the Board For WEST COAST PAPER MILLS LIMITED

Place: Dandeli

Date: February 13, 2024

**RAJENDRA JAIN EXECUTIVE DIRECTOR** 

Regd. Office: Bangur Nagar, Dandeli - 581 325, District: Uttar Kannada (Karnataka), Phone: (08284) 231391-395 (5 Lines) CIN: L02101KA1955PLC001936, GSTN: 29AAACT4179N1ZO, E-mail: co.sec@westcoastpaper.com • Website: www.westcoastpaper.com

## **Whispering Heights Real Estate Private Limited**

Regd. office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G', Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Phone: 022-26564000,

Website: - www.whisperingheights.co.in, CIN: U70109MH2016PTC286771

## **EXTRACT OF UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE** QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2023

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)]

(Currency: Indian rupees in lakhs)

Sr.		Quarter Ended			Half Yea	ır Ended	Year Ended
No.	Particulars	31 <sup>st</sup> Dec 2023	30 <sup>th</sup> Sept 2023	31 <sup>st</sup> Dec 2022	31 <sup>st</sup> Dec 2023	31 <sup>st</sup> Dec 2022	31 <sup>st</sup> March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	1,559.55	472.92	2.78	2,065.63	7.28	28.53
2	Loss for the period/ year before tax	(620.83)	(165.04)	(44.45)	(846.40)	(189.44)	(221.87)
3	Loss for the period/ year after tax	(822.82)	(582.42)	(57.22)	(1,465.61)	(182.32)	(225.94)
4	Total comprehensive loss for the period/ year	(822.82)	(588.39)	(57.22)	(1,473.07)	(182.32)	(232.61)
5	Paid up Equity Share Capital (Equity shares of Rs. 10/- each)	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
6	Reserves (excluding revaluation reserve)						49,847.69
7	Securities premium account	-	-	-	-	-	-
8	Net Worth	47,500.57	49,634.77	51,124.25	47,500.57	51,124.25	51,197.69
9	Paid up debt capital/ Outstanding debt	1,60,508.94	1,54,799.94	1,30,001.36	1,60,508.94	1,30,001.36	1,38,582.44
10	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-	-
11	Debt Equity Ratio	3.38	3.12	2.55	3.38	2.55	2.71
12	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic:	(6.09)	(4.31)	(0.42)	(10.86)	(1.35)	(1.67)
	2. Diluted:	(6.09)	(4.31)	(0.42)	(10.86)	(1.35)	(1.67)
13	Capital redemption reserve	-	-	-	-	-	-
14	Debenture redemption reserve	-	-	-	-	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0.38	0.12	(0.02)	0.17	(0.04)	(0.03)
16	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	0.28	0.09	(0.02)	0.17	(0.04)	(0.03)
17	Security Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

- a) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with BSE Limited pursuant to Regulation 52 and Regulation 54 of the Listing Regulations. The full format of the financial results is available on BSE Limited website www.bseindia.com and on Company's website at www.whisperingheights.co.in.
- The financial results have been prepared in accordance with the requirements of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended and in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, (the 'Act') read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other generally accepted accounting principles in India to the extent applicable.
- c) The unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2023 were approved by the Board of Directors of the Company, at its meeting held on 13th February, 2024.
- d) There is no change in the accounting policies for the quarter and nine months ended 31st December, 2023.

For Whispering Heights Real Estate Private Limited

Preeti Chheda Director DIN: 08066703

Place: Mumbai Date: 13th FEBRUARY, 2024





